



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1977/माघ 2, 1898

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1977/MAGHA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January 1977

**G. S. R. 25(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Technical Development (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

- (1) These rules may be called the Directorate General of Technical Development (Class I posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Schedule to the Directorate General of Technical Development (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, for item 2 and the entries relating thereto, the following item shall be substituted, namely:—

| 1   | 2                                 | 3                   | 4         | 5   | 6   |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|---|
| 2. Industrial General Adviser (Engineering) | Central Service Group A Gazetted. | Rs. 2000-125/2-2500 | Selection | Not exceeding 50 years (Relaxable for Govt. servants. | Essential: (1) Degree in Mechanical/Industrial/Electrical/Electronics/Metallurgical Engineering of a recognized University or equivalent. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5   | 6  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)</p> | <p>(ii) 10 years' practical experience in a responsible capacity in any engineering industry of repute or in a Govt. Department dealing with planning, development [production, research designs (or manufacture of Engineering products. (Qualifications relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified; in particular, the qualification regarding experience in relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them)</p> |
|   |   |   |   |   | <p><i>Desirable:</i></p> <p>(i) Familiarity with and knowledge of latest trends/problems and techniques of engineering industries with special reference to Indian conditions.</p> <p>(ii) Knowledge of an European Language other than English namely German, French, Russian or Italian.</p>   |

| 7   | 8               | 9   |
|---|-----------------|---|
| <p>Age: No Educational Qualifications: Yes.</p> | <p>2 years.</p> | <p>By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract), and failing both by direct recruitment provided, however, posts requiring specialised talent and expertise/technology may, if considered necessary and in consultation with the Union Public Service Commission be filled by transfer on deputation (including short-term contract).</p> |

| 10   | 11  | 12   |
|--|---|--|
| <p><i>Promotion:</i></p> <p>Development Officers (Engineering) (Selection Grade) with 3 years' service in the grade, failing which with 8 years' total service in the grade of Development Officer (Engineering) (Selection Grade) and Development Officer (Engineering) combined together, and failing both, Development Officer (Engineering) with 8 years' service in the grade, rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> | <p>1. <i>Chairman :</i> Chairman member, Union Public Service Commission.</p> <p>2. <i>Members :</i></p> <p>1. Secretary (Industrial Development) or Additional Secretary Department of Industrial Development.</p> <p>2. Secretary (Technical Development) &amp; Director General Technical Development.</p> | <p>Selection shall be made in consultation with the Union public Service Commission.</p> |

10

11

12

"Note: Where an officer is considered for promotion under these rules, all persons senior to him in that Grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the specified number of years of regular service in that Grade."

*Transfer on deputation (including short-term-contract).*

Officers under the Central/State Governments, Public Sector Undertakings, Universities, Recognised Research Institutions, holding analogous posts or with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1500—2000 or equivalent and possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in Column 7.

(Period of deputation/Contract shall ordinarily not exceed 5 years.)

[No. F. A-12018/6'75-E. IV]

Smt. S. BHANOT,  
Under Secy.

### उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1977

सा० का० नि० 25(अ).--राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तकनीकी विकास महानिदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तकनीकी विकास महानिदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, मद 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

| 1                                    | 2  | 3                         | 4  | 5   | 6 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|
| 2. औद्योगिक<br>सलाहकार<br>(इजीनियरी) | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा समूह क<br>राजपत्रित | न० 2000-125/2-चयन<br>2500 | 50 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों<br>के लिए शिथिल की जा सकती है) ।<br>टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने<br>की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से<br>(उनसे भिन्न जो अण्डमान और<br>निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप<br>में रहते हैं) आवेदनो की प्राप्ति<br>की अन्तिम तारीख होगी । | आवश्यक<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से<br>यात्रिक / औद्योगिक / वैद्युत / इलेक्ट्रानिक्स/<br>धातुकर्मी इजीनियरी में उपाधि ।<br>(ii) किसी ख्यातिप्राप्त इजीनियरी उद्योग<br>में या इजीनियरी उत्पादों के योजनता, विकास/<br>उत्पादन, अनुसंधान डिजाइन/या विनि-<br>र्माण में संव्यवहार करने वाले किसी सर-<br>कारी विभाग में किसी उत्तरदायी हैमियत<br>में 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।<br><br>(अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों<br>की दशा में सघ लोक सेवा आयोग के विवका-<br>नुसार शिथिलनीय, विशेषकर, अनुसूचित<br>जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्य-<br>र्थियों के लिए आरक्षित पदों की दशा में,<br>अनुभव संबंधी अर्हता शिथिल की जा<br>सकती है ।) |   |

## वांछनीय

- (i) इंजीनियरी उद्योगों की आधुनिकतम प्रवृत्तियों समस्याओं और तकनीकों से भारतीय दशाओं के विशेष प्रतिनिर्देश के साथ, सुपरिचय और उनका ज्ञान ।
- (ii) अंग्रेजी से भिन्न किसी यूरोपीय भाषा अर्थात् जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी या इतालवी का ज्ञान ।

7

8

9

आयु : नहीं  
शैक्षिक  
अर्हताएं : हा

2 वर्ष

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्प-कालिक सविदा सम्मिलित है) और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, परन्तु विशेषज्ञीय गुण और निपुणता प्रौद्योगिकी को अपेक्षा करने वाले पद, यदि आवश्यक समझा जाए और सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें अल्प-कालिक सविदा सम्मिलित है) भरे जा सकते हैं ।

10

11

12

**प्रोन्नति**

विकास अधिकारी (इजीनियरी) (चयन श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो जिसके न होने पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विकास अधिकारी (इजीनियरी) (चयन श्रेणी) और विकास अधिकारी (इजीनियरी) को श्रेणियों में दोनों को मिला कर 8 वर्ष सेवा की हो, और दोनों के न होने पर विकास अधिकारी (इजीनियरी), जिसने उस श्रेणी में नियमित आधर पर नियुक्ति के पश्चात् 8 वर्ष सेवा की हो।

“(टिप्पण जहाँ किसी अधिकारी पर इन नियमों के अधीन प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उस श्रेणी में उसमें श्रेष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी, इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने उस श्रेणी में विनिर्दिष्ट वर्षों की सख्या तक नियमित सेवा नहीं की है।)”

**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है)**

केन्द्रीय/राज्य सरकारों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनु-संधान संस्थाओं के अधीन सद्दृश पद धारण करने वाले या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने 1500—2000 रु० वेतनमान के या समतुल्य पदों पर 5 वर्ष निरन्तर सेवा की हो और जो स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(प्रतिनियुक्ति, संविदा की अवधि साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

**1. अध्यक्ष :**

अध्यक्ष, सदस्य, संघ लोक चयन, संघ लोक सेवा आयोग सेवा आयोग। के परामर्श से किया जाएगा।

**2. सदस्य :**

1. सचिव, (औद्योगिक विकास) या अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
2. सचिव (तकनीकी विकास) और महानिदेशक, तकनीकी विकास।

[सं० फा० ए-12018/6/75-स्थापन IV]

श्रीमती एस० अनोट, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977